



प्रेस नोट थाना अमरोहा देहात

दिनांक-12.10.2021

श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन में शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी:-

थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा चोरी की 02 मोटर साईकिल, 01 स्कूटी व अवैध शस्त्र (तमंचा व कारतूस) सहित शातिर वाहन चोर गिरफ्तार ।

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद अमरोहा में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती पूनम के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.10.2021 की सुबह समय करीब 09.20 बजे शातिर वाहन चोर विपिन सैनी पुत्र रामचन्द्र सैनी निवासी मीरपुर मिलन विहार थाना मझौला जनपद मुरादाबाद को अतरासी रोड ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल(बिना नम्बर प्लेट) व अवैध शस्त्र (तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर) बरामद हुए। पुछताछ पर अभियुक्त विपिन की निशादेही पर रेल पटरी के पास कारखाने के पीछे से चोरी कर बेचने हेतु छिपाकर रखी हुई एक अन्य मोटर साईकिल व एक स्कूटी बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना अमरोहा देहात पर मु0अ0स0 289/21 धारा 411/413/414 भादवि व मु0अ0सं0 290/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विपिन शातिर किस्म का वाहन चोर है जिस पर अवैध शस्त्र रखने व वाहन चोरी करने के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है और आर्थिक लाभ हेतु बाईक चोरी कर उन्हें बेच देता है। बरामद मोटर साईकिल के सम्बन्ध में पुछताछ पर अभियुक्त द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर दिनांक 10/11.10.21 की रात्रि इमली वाली मढैया मंदिर के पास से चोरी करना तथा स्कूटी को प्रीत विहार कॉलोनी खुशहालपुर जनपद मुरादाबाद से दिनांक 10.10.21 की रात्रि में चोरी करना बताया गया।





गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. विपिन सैनी पुत्र रामचन्द्र सैनी निवासी मीरपुर मिलन विहार थाना मझौला जनपद मुरादाबाद ।

बरामदगी:-

1. मोटर साइकिल चेसिस नं0 MBLHAW121MHFA7062 इंजन नं9 HA11EYMHF79957 बिना नम्बर प्लेट ।
2. मोटर साइकिल HF डीलक्स रजि0न0 UP92Z 9793 चेसिस नं0 MBLHA055J9H14299 इंजन नं0 HA11EPJ9H14523 ।
3. स्कूटी रजि0न0 UP21AZ 7507 चैसिस न0 MBLHA11AJE9K03021 इंजन न0 H11EHE9K05010
4. एक तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त विपिन सैनी:-

1. मु0अ0सं0 289/21 धारा 411/413/414 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 290/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना देहात जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 285/21 धारा 379 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0सं0 283/21 धारा 379 भादवि थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
5. मु0अ0सं0 883/21 धारा 379 भादवि थाना मझौला जनपद मुरादाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 सुभाष राणा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
3. का0 1088 लोकेश कुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
4. का0 824 रुपेन्द्र कुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
5. का0 1120 आकाश कुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
6. का0 1038 निशान्त मान थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
7. का0 1058 चन्द्रवीर सिंह थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।